



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260028
CG-DL-E-08012025-260028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946

No. 06]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2025

सं. 39/2024-2025

विषय: प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु प्रक्रिया।

फा. सं. 01/91/180/190/एएम15/निर्यात प्रकोष्ठ.—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा पहले की सार्वजनिक सूचना संख्या 73 (आरई-2013)/2009-2014 दिनांक 18.11.2014 और सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015-2020 दिनांक 05.05.2015 के अधिक्रमण में प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करती हैं:

- (i) निर्यात हेतु "जैविक उत्पाद" केवल तभी प्रमाणित किए जाएंगे जब समय—समय पर यथा संशोधित एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर उपलब्ध "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)" दस्तावेज में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार उत्पादित, संसाधित, पैक और लेबले किए गए हो।

- (ii) किसी उत्पाद को “जैविक उत्पाद” के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उसके साथ वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किया गया अंतरण प्रमाणपत्र (टीसी) संलग्न हो।
- (iii) एनपीओपी का 8वां संस्करण इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 180 दिनों के बाद से लागू होगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। यह पहले की सार्वजनिक सूचना संख्या 73 (आरई-2013)/2009-2014 दिनांक 18.11.2014 और सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015-2020 दिनांक 05.05.2015 का अधिक्रमण करती है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th January, 2025

No. 39/2024-25

Subject: Procedure for export of certified organic products.

F. No. 01/91/180/190/AM15/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023 as amended time to time, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the following procedure for export of certified organic products, in supersession of earlier Public Notice No. 73 (RE-2013)/2009-2014 dated 18.11.2014 and Public Notice No. 10/2015-2020 dated 05.05.2015:

- (i) “Organic Products” for export shall only be certified as such if Produced, Processed, Packed and labelled as per the standards laid down in the document “National Programme for Organic Production (NPOP)”, available on the website of APEDA www.apeda.gov.in as amended from time to time.
- (ii) A product will be allowed to be exported as “Organic Product” only when accompanied by a Transaction Certificate (TC) issued by a Certification Body accredited by the National Accreditation Body (NAB) for Organic Products under the National Programme for Organic Production (NPOP) of the Department of Commerce.
- (iii) The 8th edition of the NPOP shall come into force with effect from 180 days from the date of issuance of this notification.

2. Effect of this Public Notice: Procedure for export of Certified Organic Products has been notified. This supersedes the earlier Public Notice No. 73 (RE-2013)/2009-2014 dated 18.11.2014 and Public Notice No. 10/2015-2020 dated 05.05.2015.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.